



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 फाल्गुन 1941 (श०)

(सं० पटना 162) पटना, बुधवार, 26 फरवरी 2020

सं० 08/आरोप-01-03/2020,सा०प्रा०-2371
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

14 फरवरी 2020

वर्ष-2019 में पटना जल जमाव पर गठित समिति का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने से संबंधित दोषी पदाधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार तरुण, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1013/11, कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल, पटना को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का अनुरोध नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-734 दिनांक 10.02.2020 द्वारा किया गया है।

वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 में निहित प्रावधानों के तहत श्री वीरेन्द्र कुमार तरुण, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1013/11, कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल, पटना को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. संदर्भित आरोपों की जाँच हेतु इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिव महादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 162-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>